



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 28 नवम्बर, 2022

अग्रहायण 7, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या 23/2022/1866/तीस-4-2022-30-4099(099)-229-22

लखनऊ, 28 नवम्बर, 2022

अधिसूचना

सा0प0नि0-68

केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 51-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, मोटरयान (यान स्क्रैपिंग सुविधा रजिस्ट्रीकरण और कृत्य) नियम, 2021 के नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित "निक्षेप प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किये जाने के सापेक्ष नया यान क्रय किये जाने के पश्चात् उसके रजिस्ट्रीकरण पर, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन मोटरयान कर में पन्द्रह वर्ष तक एक बारीय कर का पन्द्रह प्रतिशत और उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 4 की उपधारा (2) तथा (2क) के अधीन आठ वर्ष तक संदेय कर का दस प्रतिशत छूट "निक्षेप प्रमाण पत्र" के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 23/2022/1866/XXX-4-2022-30-4099(099)-229-22, dated November 28, 2022 :

No. 23/2022/1866/XXX-4-2022-30-4099(099)-229-22

*Dated Lucknow, November 28, 2022*

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997), *read* with rule 51-A of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Governor is pleased to give concession for a period of one year from the date of “Certificate of Deposit” in the motor vehicle tax under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 of 15 per cent of one time tax up to fifteen years and under sub-section (2) and (2-A) of section 4 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 of 10 per cent of tax payable up to eight years on registration of new vehicle after purchasing against submission of “Certificate of Deposit” as defined in clause (c) of sub-rule (1) of rule 3 of the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021.

By order,

L.VENKATESHWAR LU,

*Pramukh Sachiv.*